



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 3 नवम्बर, 2014  
परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 42/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्ध  
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: डॉ० सी०वी० रमन की जन्मशती के अवसर पर दिनांक 7 नवम्बर, 2014 को "भारत के युवा वैज्ञानिक मानस" के लिए सी०वी०एस०ई० अभिव्यक्ति शृंखला का आयोजन।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनमें वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा समर्पित अनुसंधानों एवं शोध द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हुआ है।

डा० सी०वी० रमन ने 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन कर भारत का नाम ऊँचा किया। उनकी इस खोज को 'रमन प्रभाव' के नाम से जाना जाता है, जो रासायनिक यौगिक की आण्विक संरचना का विश्लेषण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 'रमन प्रभाव' वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण सिद्ध हुआ है।

ऐसे महान वैज्ञानिक को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए के०मा०शि०बो० 7 नवम्बर, 2014 को एक अभिव्यक्ति शृंखला की घोषणा करता है।

विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान से संबंधित विषयों पर (विषय के लिए अनुसंलग्नक 1 देखें) लेख, परियोजनाएं एवं चित्र जमा कराने के साथ यह शृंखला भारत के युवा वैज्ञानिक छात्रों को सामने ले कर आएगी।

प्रविष्टियाँ 7 नवम्बर 2014 को सुबह 8 बजे से सायं 5.30 तक ऑनलाइन मोड द्वारा के०मा०शि०बो० की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक पर जमा की जा सकती हैं अथवा ऑफलाइन मोड (मोबाइल फोन का उपयोग करके, संलग्नक II देखें) द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में तथा अंग्रेजी में निम्न तीन श्रेणियों में भेजी जा सकती है-

- क) कक्षा I से V
- ख) कक्षा VI से VIII
- ग) कक्षा IX से XII

प्रत्येक श्रेणी से 10 सर्वप्रथम प्रविष्टियों को 2500 रु० नकद पुरस्कार एवं एक योग्यता प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रत्येक प्रतिभागी को एक ऑनलाइन प्रतिभागिता सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जीती हुई प्रविष्टियों को एक ई-बुक के रूप में संगठित किया जाएगा।

किसी भी जानकारी के लिए कृपया ईमेल [praggyamsingh.cbse@gmail.com](mailto:praggyamsingh.cbse@gmail.com) पर अथवा दूरभाष नम्बरों 011-23212603/23234324/23215130 पर संपर्क कर सकते हैं। के०मा०शि०बो० इस सामूहिक प्रयास में आपकी सक्रिय भागीदारी की आशा करता है।

आपकी शुभाकांक्षी

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)